

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा
DEPARTMENTAL EXAMINATION OF INSPECTORS OF CENTRAL EXCISE

प्रश्न पत्र – द्वितीय (PAPER – 2)
सीमा शुल्क (सपुस्तक) – (CUSTOMS WITH BOOKS)

दिनांक : 17.06.2014 (DATE :17.06.2014)
समय : 2.00 अ० से 5.00 अ० (TIME:2.00 PM to 5.00 PM)

पूर्णांक : 100 (MAXIMUM MARKS : 100)
उत्तीर्णांक : 50 (PASS MARKS : 50)

टिप्पणी :

1. सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।
 2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
 3. परीक्षार्थियों को हिंदी में उत्तर देने का विकल्प है।
 4. उत्तर के साथ सम्बन्धित अथॉरिटी का उल्लेख करें।
1. All questions are compulsory.
 2. All questions carry equal marks.
 3. Candidates have options to answer in Hindi
 4. Relevant authority must be quoted with all answers.

Note :

सम्बन्धित पुस्तकें:

1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
2. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51)
3. सीमा शुल्क नियम एवं विधियां
4. विदेशी व्यापार नीति-2009-14
5. आयात-निर्यात विधियों की दिग्दर्शिका
6. सीमा शुल्क सम्बन्धित अन्य अधिनियम और एदत् द्वारा बनाये गये नियम।
7. विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 और तत्सम्बन्धी नियमावली।

CONCERNED BOOKS:

1. The Customs Act, 1962 (52 of 1962)
2. The Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
3. Customs Rules and Procedures
4. Foreign Trade Policy-2009-14
5. Handbook of Export and Import Procedure
6. Customs, Allied Acts and Rules made there under
7. The Special Economic Zone Act, 2005 and Rules made there under.

प्रश्न. 1 निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच को परिभाषित करें।

- (क) आयुक्त (अन्वेषण) समझौता आयोग।
- (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनरीक्षण।
- (ग) सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि।
- (घ) वास्तविक यात्री सामान।
- (ङ) मोचन अर्थदण्ड।
- (च) अवैध तरीके से आयातित वस्तुओं से सम्बन्धित अधिसूचित वस्तुएं।
- (छ) अवैध निर्यात।
- (ज) अवैध आयात।

Q.1:- Define any five of the following:-

- (a). Commissioner (Investigation) Settlement Commission.
- (b). Revision by Central Government.
- (c). Authorized Representative under Customs Act.
- (d). Bonafide Baggage.
- (e). Redemption fine.
- (f). Notified goods in report of illegally imported goods.
- (g). Illegal Export.
- (h). Illegal Import.

प्रश्न. 2 निम्नलिखित में से किन्हीं दस के लिए सीमा शुल्क अधिनियम-1962 की सुसंगत धाराओं को उद्धृत करें।

- (1) परित्यक्त वस्तुओं पर शुल्क में छूट।
- (2) शुल्क में छूट प्रदान करने की शक्ति।
- (3) पाँच वर्षों के अन्दर शुल्क की वसूली।
- (4) प्राइवेट भंडागार की अनुज्ञप्ति का रद्दकरण।
- (5) गलती से शुल्क वापसी (ड्राबैक) के प्रत्युद्धरण पर ब्याज।
- (6) वाहन का ताला तोड़कर तलाशी की शक्ति।
- (7) वाहन पर गोली चलाने की शक्ति।
- (8) वायुयान की छानबीन करने की शक्ति।
- (9) वाहन में छुपाये गए प्रतिषिद्ध माल की जब्ती (अधिहरण)।
- (10) संवेष्टन (पैकिंग) सामग्री की जब्ती।
- (11) जब्त माल का स्वामित्व केन्द्र सरकार का है।
- (12) ड्यूटी पर कार्यरत सीमा शुल्क अधिकारी को साशय बाधित करने हेतु दण्ड।

Q.2:- Quote relevant sections of the customs Act 1962 for any ten of the following:-

- (1). Remission on duty on abandoned goods.
- (2). Power to grant exemption on duty.
- (3). Recovery of duty within five years.
- (4). Cancellation of license of private warehouse.
- (5). Interest on erroneously draw back recovery.
- (6). Power to search by breaking the lock of conveyance. .
- (7). Power to fire on conveyance.
- (8). Power to rummage the aircraft.
- (9). Confiscation of prohibited goods concealed in vehicle.
- (10). Confiscation of packing material.
- (11). Ownership of confiscated goods is of Central Government.
- (12). Punishment for obstruction to customs officer on duty intentionally.

प्रश्न. 3 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :- (प्रत्येक पर 10 अंक)

- (क) शुल्क के भुगतान का ढंग
- (ख) कार्नेट
- (ग) ड्यूटी ड्रा बैक स्कीम (शुल्क वापसी योजना)
- (घ) निर्यात सामान्य सूची (ईजीएम)

Q.3:- Write short notes on any two of the following:-

(10 marks each):-

- (a). Mode of payment of duty.
- (b). Carnet .
- (c). Duty Drawback Scheme.
- (d). Export General Manifest (EGM).

प्रश्न. 4 भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ के अधीन निम्नलिखित में से किन्हीं दस का वर्गीकरण करें :-

- (1) 40 किलो वजन के संकर नस्ल (Not Purebread) के जीवित सूअर।
- (2) कोयले का साफ्ट कोक (हल्का कोयला)
- (3) वैद्युत ऊर्जा
- (4) डिस्पर्स डाई ब्लू 21
- (5) पोली यूरेथेन्स
- (6) प्लास्टिक एल्बो सहित प्रबलित रबर पाइप
- (7) फुटकर बिक्री के लिए शत प्रतिशत सूती धागा
- (8) पोलियस्टर फाइबर के दस्तानें
- (9) ग्रेनाइट स्लैब्स
- (10) इयर रिंग्स के रूप में स्वर्णरंजित अनुकृत आभूषण
- (11) चाँदी के सिक्के जो मुद्रा नहीं हैं।
- (12) कृत्रिम मानव अस्थि
- (13) फोटो मीटर्स
- (14) मेकेनिकल एलार्म क्लॉक
- (15) ट्रम्पेट

Q.4:- Classify any ten of the following in Indian Customs Tariff:-

- (1). Live Swine not pure breed weighing 40 Kgs.
- (2). Soft coke of coal.
- (3). Electrical Energy.
- (4). Disperse Dye Blue 21.
- (5). Polyurethanes
- (6). Rubber pipe reinforce with plastic elbow.
- (7). 100 percent cotton yarn for retail sale.
- (8). Gloves of polyesters fibers.
- (9). Granite slabs.
- (10). Imitation jewellery plated with gold in the form of ear rings.
- (11). Silver coin which is not currency.
- (12). Artificial human bone.
- (13). Photometers.
- (14). Mechanical alarm clock.
- (15). Trumpet.

प्रश्न. 5 निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे :

- (1) आई०ई०सी० संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया।
- (2) डी०एफ०आर०सी० और डी०ई०ई०सी० स्कीम में अंतर बताएं।
- (3) जी०आर० फार्म।
- (4) डी०एफ०आई०ए० स्कीम में मूल्य परिवर्धन।
- (5) जीरो ड्यूटी ई०पी०सी०जी० स्कीम।
- (6) औद्योगिक वास्तविक उपयोगकर्ता और गैर-औद्योगिक वास्तविक उपयोगकर्ता में अंतर।

Q.5:- Write short notes on any four of the following:-

- (1). Procedure for obtaining IEC number.
- (2). Difference between DFRC and DEEC Scheme .
- (3). G.R. Form.
- (4). Value addition in DFIA Scheme.
- (5). Zero duty EPCG Scheme.
- (6). Difference between industrial actual user and non-industrial actual user.
